

7  
8  
8  
0  
0  
8  
DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS  
FROM FRUITS  
AND VEGETABLES (D.V.A.P.F.V.)

Term-End Examination

December, 2010

**BPVI-005 : FOOD MICROBIOLOGY**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

---

*Note : Attempt total five Questions including question one which is compulsory. All questions carry equal marks.*

---

1. Define the following :  $10 \times 1 = 10$
- (a) Mycostatic
  - (b) Rancidity
  - (c) Proteolytic microorganisms
  - (d) Putrefaction
  - (e) pH
  - (f) Xerotolerant
  - (g) Halotolerant
  - (h) Enzymes
  - (i) Single cell Protein
  - (j) Water Activity

- 2.** Differentiate between the following :  $4 \times 2.5 = 10$
- (a) Food borne intoxications and food borne infections.
  - (b) Aflatoxins and Ochratoxins.
  - (c) Giardiasis and amoebiasis.
  - (d) Food spoilage organisms and pathogens.
- 3.** Write short notes on *any four* of the following :  $4 \times 2.5 = 10$
- (a) Chemical spoilage of canned foods.
  - (b) Sterilisation.
  - (c) Gram positive and Gram negative bacteria.
  - (d) Importance of water activity.
  - (e) Chemical contaminants of food.
- 4.** (a) Explain the formation of special structures by bacteria.  $4 \times 2.5 = 10$
- (b) List the principles of food preservation.
  - (c) What is meant by solid state Fermentation ?
  - (d) What are Bacteriocins ?
- 5.** (a) Give an account of the gaseous chemical food preservatives.  $5 \times 2 = 10$
- (b) How are foods classified based on pH ?

6. (a) Discuss the various processes for vinegar preparation.  $2 \times 5 = 10$
- (b) Give an account of *Salmonella* food infection.
7. (a) What are preservatives ? What are the major prerequisites to use a chemical as a preservative.  $2 + 3$
- (b) Briefly discuss the factors which influence the action of a food preservative.  $5$
8. How the micro organisms are classified on the basis of :  $2.5 \times 4 = 10$
- (a) Temperature for growth,
  - (b) Oxygen requirement for growth
  - (c) Water activity requirements.
  - (d) Nutrient degrading capability.
-

फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के उत्पादन पर  
आधारित डिप्लोमा (डी.वी.ए.पी.एफ.वी.)

सत्रांत परीक्षा  
दिसम्बर, 2010

बी.पी.वी.आई.-005 : खाद्य सूक्ष्मजैविकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

---

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

---

1. निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

$10 \times 1 = 10$

- (a) कवकनिरोधी
- (b) विकृतगतिहा
- (c) प्रोटीनअपघटक सूक्ष्मजीव
- (d) पूयन
- (e) पी एच
- (f) मरुसह
- (g) लवणसह
- (h) एंजाइम
- (i) एकल कोशिका प्रोटीन
- (j) जल क्रिया

- 2. अंतर स्पष्ट कीजिए :** **4x2.5=10**
- (a) खाद्य वाहित विषाक्तता और खाद्य वाहित संक्रमण
  - (b) एफलाटोक्सिन और ओकराटोक्सिन
  - (c) जिआर्डिएसिस और अमोबिएसिस
  - (d) खाद्य विकृति जीव एवं रोगजनक
- 3. किन्हीं चार पर संक्षेप में नोट लिखिए :** **4x2.5=10**
- (a) डिब्बाबंद खाद्यपदार्थों की रासायनिक विकृति
  - (b) निर्जर्मीकरण
  - (c) ग्रैम ग्राही और ग्रैम अग्राही जीवाणु
  - (d) जल क्रिया का महत्व
  - (e) खाद्यपदार्थ के रासायनिक संदूषक
- 4.** (a) जीवाणु द्वारा विशेष संरचना के गठन को स्पष्ट कीजिए।  
(b) खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत की सूची बनाइए। **4x2.5=10**  
(c) ठोस प्रावस्था किण्वन से आप क्या समझते हैं?  
(d) जीवाणुभोजी क्या है?
- 5.** (a) गैसीय रासायनिक खाद्य परिरक्षकों का ब्यौरा दीजिए।  
(b) पी एच के आधार पर खाद्यपदार्थों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? **5x2=10**
- 6.** (a) सिरका निर्माण की विविध प्रक्रियाओं की चर्चा कीजिए।  
(b) साल्मोनेला खाद्य संक्रमण का ब्यौरा दीजिए। **2x5=10**

7. (a) परिरक्षक क्या हैं? परिरक्षक के रूप में रासायनिक का  $2+3$   
प्रयोग करने के प्रमुख पूर्वापेक्षित बिंदु कौन से हैं?  
(b) खाद्य परिरक्षक की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों  
की संक्षेप में चर्चा कीजिए।  $5$
8. सूक्ष्मजीवों को निम्नलिखित के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया  
जाता है?  $2.5 \times 4 = 10$
- (a) वृद्धि हेतु तापमान
  - (b) वृद्धि हेतु आवश्यक ऑक्सीजन
  - (c) जल क्रिया
  - (d) पोषक तत्व निम्नीकरण क्षमता।
-